GSTIN : 03 AAHCM 9649 M 1 ZV FSSAI :12118721000032

CIN No.: L 15311 CH 2011 PLC 033393

MEGASTAR FOODS LTD.

Registered Office: Plot No. 807 Industrial Area Phase-2, Chandigarh-160 002 Works: Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140 108, Distt. Roopnagar, Punjab Ph.: +91 1881 240401 (6 Lines) E-mail: info@megastarfoods.com



E: MEGASTAR/STK EX 2223/26

Date: 03 June 2023

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 541352

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", C-1, Block-G

Bandra-Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: MEGASTAR

Series: Eq.

Sub: Intimation of Publication of Postal Ballot Notice.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Postal Ballot Notice published in the following newspapers on Saturday, 03 June 2023.

- Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

Further, the above information is also available on the Company's website at www.megastarfoods.com under the head of Investor.

You are requested to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For MEGASTAR FOODS LIMITED

Dhiraj Kheriwal Company Secretary & Compliance Officer

Encl:- A/a











PH Circle

Muvattupuzh

Head Office, Star House 1, Risk Management Department, Information Security Cell, 3rd Floor, East Wing, C-5 - G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051. Email: security.information@bankofindia.co.in

Bank of India invites Request for Proposal (RFP) for Selection of Qualified Security Assessor (QSA) for Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)

TENDER NOTICE

Last date for submission of Request for Proposal: 21.06.2023 by 3.00 pm. Full details are available on the Bank's Corporate Website: www.bankofindia.co.in under 'Tender' Section from 01.06.2023. Amendments / Corrigendum, if any, will be kept on website only.

(Investment Manager: Bank of India Investment Managers Private Limited)

AMENDMENT TO THE TRUST DEED OF BANK OF INDIA MUTUAL FUND:

Bank of India Mutual Fund

(Formerly BOI Star Investment Managers Private Limited)

(Formerly BOI AXA Investment Managers Private Limited) Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013,

Background reason for changes in Trust Deed:

(Formerly BOI AXA Mutual Fund)

CIN: U65900MH2007FTC173079

Deed of Bank of India Mutual Fund.

Company.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

WRD/KWA-CE(SR)/TR/8631/2022_5_3_2/2, WRD/KWA-CE(SR)/TR/7902/2022_26_5_4/1 JJM - Works of (1) Erumeli Package 6, (2) Nedumkunnam, (3) Kangaza Package 4B and (4) Thalapalam - Panchayat in Kottayam District respectively - Construction of Service reservoirs, laying of distribution network and providing FHTCs..EMD: Rs. 5.00.000/-, 5.00.000/-, 2.00.000/-, 5.00.000/-, Tender fee: Rs. 16540 +(2978) GST, 16540 +(2978 GST, 11025+(1985) GST, 16540 +(2978) GST, Last Date for submitting Tender: 22-06-2023 03:00:pm, Phone: 04812562745 , Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

KWA-JB-GL-6-407-2023-24

Bank of India

Mutual Fund

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Jal Jeevan Mission (JJM)-JJM- 2021-2022- Elappara Grama Panchayath: Providing FHT(in Rural House Holds in Elappara Grama Panchayath-Providing FHTC in Rural Hous Holds in Elappara Grama Panchayath-General Civil Work. EMD: Rs.500000 Tender fee :Rs. 16540,Last Date for submitting Tender : 26-06-2023 04:00:pm Phone: 0485 2835637, Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in Superintending Enginee

KWA-JB-GL-6-402-2023-24

Kottayar

Works: Village Solkhian, Near Haveli Resorts, District Rupnagar, 140108

NOTICE is hereby given, in accordance with the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time) ("the rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and other applicable laws and regulations, that the approval of members of Megastar Foods Limited ("The Company") is being sought for Special Businesses as stated in the Notice of Postal Ballot dated May 30, 2023, through remote electronic voting (remote e-voting) by following the process of postal ballot and Remote E-Voting.

In accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Company is initiating the dispatch of Postal Ballot Notice in electronic form i.e. through e-mail to all the shareholders of the Company whose names appear in the beneficial owners list as received from the Depositories as on Friday, May 26, 2023 ("Cut Off Date") and hard copy of this Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this postal ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take

instruction has been sent on June 02, 2023 only by email to all those members whose names appear on the register of members/ list of beneficial owners and whose email address is registered with Company Depositories on Friday, May 26, 2023 ("Cut Off Date"). Members may note that the voting period commences from Saturday, June 03, 2023 (09:00 A.M.) and will end on Sunday, July 02, 2023 (05:00 P.M.) both days inclusive. During this period, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Friday, May 26, 2023 ("Cut Off Date") shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and such Members may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled for voting thereafter by CDSLand remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once vote on a resolution is cast by the member, he / she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure for

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ajay Arora (Membership No. 2191; CP No. 993) Proprietor of A. Arora & Co. Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and remote e-voting and to scrutinize the votes received through remote e-voting in

The result of postal ballot shall be declared on or before Tuesday, July 04, 2023 at the registered office of the Company and will also be posted on the Company's website the Company i.e. http://megastarfoods.com /assets/pdf/Notice%20of%20Postal%20Ballot.pdf at Company Website at www.megastarfoods.com and communicated on the same day to stock exchange, registrar and share transfer agent and e-voting agency. Member who does not received the Postal Ballot Notice may send an email to cs@megastarfoods.com or may apply to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com and obtain a copy of Postal Ballot Notice. The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the website of the Company at www.megastarfoods.com

Any query / grievance with respect to the voting by remote electronic meansmay please be addressed to Mr.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting

For Megastar Foods Limited

MEGASTAR FOODS LIMITED CIN: L15311CH2011PLC033393 Registered Office: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160102 Telephone: +91 1881 240401; Website: www.megastarfoods.com; E-mail: cs@megastarfoods.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

place through the remote e-voting system only. Pursuant to the said MCA circulars and SEBI circulars, the Postal Ballot Notice including remote e-voting

voting has been mentioned in the Postal Ballot Notice. a fair and transparent manner.

and website of e-voting agency https://www.evotingindia.com.

Dhiraj Kheriwal, Company Secretary and Compliance officer, Megastar Foods Limited at Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160102, India or at Email id: cs@megastarfoods.com or on +91 1881 240401.

user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evotingindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33 or send a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Vikas Gupta Whole Time Director DIN: 05123386

(₹ in Million)

Date: 03 June 2023

Place: Chandigarh

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L65993PN2009PLC134196

Registered Office: Mundhwa, Pune - 411 036 Tel: 91 20 66215000, Fax: 91 20 26821124 Website: www.kalyani-investment.com E-mail: investor@kalyani-investment.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ended	Year Ended		
		March 31, 2023 Unaudited	Dec 31, 2022 Unaudited	March 31, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited	March 31, 2022 Audited
1	Total Income from operations	32.39	126.08	22.53	556.77	307.23
2	Profit for the period (before share of net profits of Associate,					
	Exceptional Items, Tax)	16.25	121.07	11.12	525.93	277.26
3	Profit for the period before tax					
200	(after exceptional item)	129.14	203.89	76.03	771.76	713.13
4	Profit for the period after tax	94.99	157.25	60.39	580.82	571.74
5	Total Comprehensive Income after tax (comprising Profit for the period (after tax)	700000000000	\$100,000,000		6-900-948-94-93A	
0.00	and Other Comprehensive Income (after tax))	(6,193.33)	10,584.65	(591.61)	5,004.29	7,231.22
6	Equity Share Capital	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65
7	Other Equity				58,468.95	53,464.66
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) Basic & diluted (not annualised)	21.76	36.02	13.83	133.05	130.97

Note:

Date : June 2, 2023

Corporate Debtor

as registered with the Board

Place : Pune

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No.CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of Quarterly Financial Results is available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.kalyani-investment.com

For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

AMIT B. KALYANI CHAIRMAN

PUBLIC NOTICE

In compliance with the Para 5 of Notification

No. DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued

by Reserve Bank of India on July 09, 2015 and prior approval for change of Managemen from RBI, Delhi vide letter No. S229/C.M.S/ 05.02.006/ 2023-24 dated May 30, 2023. Notice is hereby given that the shareholders of B P Securities (India) Private Limited, a company incorporated under the companies Act, 1956 and Registered as Non-Deposit taking Non-Banking Finance Company with Reserve Bank of India vide Certificate Number 14.00144, is intended to transfer the ownership and control of the company through the sale of shares to 1. Mr. Ram Kumar Aggarwal 2. Mr. Manuj Aggarwal 3. Ms. Shweta Aggarwal and 4. Mr. Gopal Mittal. The new directors to be appointed are 1. Mr. Ram Kumar Aggarwal 2. Mr. Manuj Aggarwal and 3. Ms. Shweta Aggarwal, all by occupation Business. The transfer is to scale up, expand and diversify the business activity. Any clarification / Objection in this regard may be addressed to B P Securities (India) Private Limited at 2285/21, First Floor, Gali Hinga Beg, Tilak Bazar, Delhi-110006 within 30 days from the date of publication of this

For B P Securities (India) Private Limited (Jeetmal Choraria (DIN-00078325), Delhi) On behalf of Proposed transferee

notice stating therein the nature of interest

and grounds of objection. This public Notice

is being issued jointly by the Company and

the above mentioned Acquirers.

(Manuj Aggarwal (DIN-02439199)

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF PITAMBARA BUSINESS PROMOTIONS PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Montage Printpack Sales Private Limited) **Particulars** PITAMBARA BUSINESS PROMOTIONS Name of Corporate Debtor PRIVATE LIMITED (Formerly known as Montage Printpack Sales Private Limited) Date of incorporation of Corporate 29/08/2019 Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability CIN: U51909DL2019PTC354412 Identification no. of Corporate Debtor Address of the registered office and B-109, G/F, SHOP NO. -7, GALI NO.10, SHASHI principal office (if any) of Corporate GARDEN, MAYUR VIHAR PHASE-I, DELHI East Delhi DL 110091 IN Date of closure of Insolvency 29-05-2023 Resolution Process Liquidation commencement date of 30-05-2023

N00006/2016-17/10006

Delhi, 110089

E-Mail: ml_jain@sumedhamanagement.com Address for correspondence: 10. Address and e-mail to be used for C/o Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd. correspondence with the liquidator B1/12, Safdarjung Enclave, 2nd Floor New Delhi - 110029 Email: cirp.pitambarabppl@gmail.com 11. Last date for submission of claims 29.06.2023 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench - III has ordered the commencement of liquidation of the Pitambara Business

Name and registration number of the Name; Mr. Mohan Lal Jain

Limited) on 30.05.2023. The stakeholders of Pitambara Business Promotions Private Limited (Formerly known as Montage Printpack Sales Private Limited) are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 29.06.2023, to the liquidator at the address

Promotions Private Limited (formerly known as Montage Printpack Sales Private

mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. Mohan Lal Jain

Liquidator In the matter of Pitambara Business Promotions Private Limited Date : 03.06.2023 (formerly known as "Montage Printpack Sales Private Limited") Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF NEEMSAR VYAPAAR PRIVATE LIMITED (Formerly known as Montage Flexipack Sales Private Limited) **Particulars**

FORM B

Name of Corporate Debtor NEEMSAR VYAPAAR PRIVATE LIMITED (Formerly known as Montage Flexipack Sales Private Limited) Date of incorporation of Corporate 26.08.2019 Authority under which Corporate Debtor RoC-Delhi is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability | CIN: U51909DL2019PTC354268 Identification no. of Corporate Debtor Address of the registered office and C-46, SHOP NO. 4, ACHARYA NIKETAN. principal office (if any) of Corporate MAYUR VIHAR PHASE-I, PATPARGANJ DELHI East Delhi DL 110091 IN Date of closure of Insolvency 29-05-2023 Resolution Process Liquidation commencement date of 30-05-2023 Corporate Debtor Name and registration number of the Name: Mr. Mohan Lal Jain insolvency professional acting as Registration Number: IBBI/IPA-002/IPinsolvency professional acting as Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00006/ 2016-17/10006 Address and e-mail of the liquidator, Address: F-2/28, Sector-15, Rohini, New Delhi. Address and e-mail of the liquidator, Address: F-2/28, Sector-15, Rohini, New Delhi, as registered with the Board Delhi - 110089 E-mail: ml_jain@sumedhamanagement.com 0. Address and e-mail to be used for Address for correspondence: C/o Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd. correspondence with the liquidator

> Bench - III has ordered the commencement of liquidation of the Neemsar Vyapaar Private Limited (Formerly known as Montage Flexipack Sales Private Limited) on The stakeholders of Neemsar Vyapaar Private Limited (Formerly known as Montage Flexipack Sales Private Limited) are hereby called upon to submit their claims with

> proof on or before 29.06.2023, to the liquidator at the address mentioned against item

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by

Mohan Lal Jain Liquidator In the matter of Neemsar Vyapaar Private Limited Date : 03.06.2023 (formerly known as "Montage Flexipack Sales Private Limited")

Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

financialexp.epap.in

Place: Mumbai

Date : June 02, 2023

Notice is hereby given to the Unit holders of Bank of India Mutual Fund ("the Fund") that it has been proposed to amend the existing Trust The provision related to Trustee Fees is being amended in the existing Trust Deed on account of increase in the expenses in Trustee Revised

II. Proposed key changes envisaged: The following provision related to Trustee Fees in the existing Trust Deed is proposed to be amended:

NOTICE NO. 03/2023-24

Existing Point No. Heading The Trustee shall be paid fees calculated at Remuneration the rate specified in the offer document of each of Trustee Scheme, not exceeding in any case 0.01% per annum (One hundredth of one percent per annum)

SEBI Regulations.

of the weekly average NAV of the relevant Scheme. The remuneration aforesaid shall be deemed to accrue do die in diem and shall continue to be payable until the Trust shall be finally wound up and whether or not the said Trust shall be in the course of administration by or under the order or direction of the Court. In addition to the aforesaid remuneration, the Trustee may be reimbursed for costs, charges and expenses incurred in or for the effective discharge of its obligations and responsibilities towards the Trust and such reimbursement from and out of the Trust Funds

The Trustee shall be paid fees calculated at the rate specified in the offer document of each Scheme, not exceeding in any case 0.03% per annum (Three hundredth of one percent per annum) of the weekly average NAV of the relevant Scheme. The remuneration aforesaid shall be deemed to accrue do die in diem and shall continue to be payable until the Trust shall be finally wound up and whether or not the said Trust shall be in the course of administration by or under the order or direction of the Court. In addition to the aforesaid remuneration, the Trustee may be reimbursed for costs, charges and expenses incurred in or for the effective discharge of its obligations and responsibilities towards the Trust and such reimbursement from and out of the Trust would always be to the extent permitted under the | Funds would always be to the extent permitted

under the SEBI Regulations.

III. Details of approvals obtained/ required:

You may please note that proposed amendment has been approved by the Board of Bank of India Investment Managers Private Limited ("the AMC" or "BOIIMPL") and Bank of India Trustee Services Private Limited ("the Trustee" or "BOITSPL") in its meetings held on March 17, 2023 and March 20, 2023 respectively.

Pursuant to Clause 17 of Third schedule of SEBI (Mutual Funds), Regulations, the Trust Deed shall provide that no amendment to the Trust Deed shall be carried out without the prior approval of the board and unitholders is obtained. In this regard, SEBI vide its email dated May 11, 2023 has also accorded its no-objection for amendment to the provisions of Trust Deed.

Additionally, as per the provisions of SEBI MF Regulations, consent of the unitholders of the schemes of the Fund would be required to amend the Trust Deed through postal ballot/electronic means.

IV. Approval of Unitholders for proposed changes in Trust Deed as reflected in Supplemental Trust Deed: In accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds), Regulations, 1996 ("SEBI MF Regulations") read with SEBI Circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2021/024 dated March 04, 2021, prior approval of the unitholders of Bank of India

Accordingly, we seek unitholders approval through postal ballot/electronic means for amending the Trust Deed.

Mutual Fund would be required for making changes in the Trust Deed as reflected in the Supplemental Trust Deed. A copy of the Supplemental Trust Deed (draft) is enclosed as (EXHIBIT A) in letter to unitholders which shall be sent separately and No-objection from SEBI ("SEBI NOC") is available at the registered office of Bank of India Investment Managers Private Limited at B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 should you wish to review the same.

The Unitholders are requested to note that Amended Supplementary Trust Deed can be accessed on AMC website by clicking at https://www.boimf.in/regulatory-reports/addenda-notice.

V. Terms of Voting:

- a) All unitholders of the schemes of the Fund, as per the records of RTA, as on May 31, 2023 will be entitled to vote in respect of the
- b) The voting window shall remain open from June 05, 2023 (ballot open date) till July 04, 2023 (ballot closing date) upto 5 PM (Both days inclusive). All duly signed and filled-up Ballot Papers received by the Registrar and votes received electronically, during these days and time will be accepted and considered, if found valid, for the purpose of determining the results of ballot.
- Each unitholder will be entitled to one vote for every unit held on the aforesaid date.

VI. Procedure for Voting and determining Results of the Ballot:

Consent of those unitholders of Bank of India Mutual Fund whose names appear in the Register of Unitholders as at the close of business hours on May 31, 2023 (Record date) shall be sought in the following manner:

- (a) Unitholders are requested to fill and sign the ballot paper (enclosed as EXHIBIT B herein) ("Ballot Paper") of letter to unitholders clearly indicating approval or disapproval. It is clarified that the Ballot Paper is to be signed as per mode of holding in line with normal practice for all other transactions. This means if the holding is "Joint", all holders need to sign and for "Anyone or Survivor", anyone can sign.
- (b) Unitholders who have their email address/mobile number registered with the Fund can provide their votes electronically through https://online.boimf.in/General/Notice upto July 04, 2023 (5 PM). The votes received electronically from unitholder/s will be considered for and on behalf of all joint holders in that particular folio/s.
- (c) Unitholders who do not wish to vote electronically or are not able to vote electronically, can submit a physical copy of the Postal Ballot Paper to Registrar & Transfer Agent, KFin Technologies Limited (Unit: Bank of India Mutual Fund), Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032 or at any Investor Service Centers (ISC) of the Fund.
- (d) The Ballot Paper, duly filled and signed, can either be sent to the Registrar by post at the following address or submitted at any of the Investor Service Centres of the Fund (ISC), details of which are available on AMC website address. You are requested to send the Ballot Paper to the below mentioned address of the Registrar i.e. KFin Technologies Limited (Unit: Bank of India Mutual Fund),
- Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032. (e) If you require a fresh Ballot Paper, you are requested to contact the ISC or download the same from the website
- (https://www.boimf.in/regulatory-reports/addenda-notice) of the fund. (f) All valid Ballot Papers and valid votes received electronically will be counted by the Registrar under the supervision of an independent
- scrutinizer appointed by the Fund. (g) In case the Unitholder provides his vote through the Postal Ballot paper as well as electronically, then the vote received through Postal
- Ballot duly signed and valid, will be considered.
- (h) Unitholders are requested to note that: if you do not send the duly filled signed Ballot Paper, or provide your vote electronically, or if no valid vote is received either through Ballot Paper or electronically by the Registrar on or before July 04, 2023 (ballot closing date) upto 5 PM, then it will be deemed that you have approved the proposed change detailed in para IV of this Notice and that you and joint holders, if any, do
 - not have any objection to the proposed change. if more than 50% of the total valid votes received (or deemed to be received, as above) are in favour of the aforementioned proposed change, then such change would stand approved by all the unitholders of all schemes of the Fund and be binding on all the unitholders of all schemes of the Fund.

The result of the postal ballot shall be intimated to the unitholders by way of email on their registered email id or by way of a notice in newspaper. The results of the postal ballot shall also be announced on the website address (www.boimf.in).

We wish to inform that M/s U. Hegde & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for scrutinizing the conduct of voting exercise in a fair and transparent manner.

VII. Exemption from requirements of Regulation 18 (15A) and Regulation 22(e) of MF Regulations:

Since the proposed change is on account of amendment in the existing Trust Deed with no change in the (a) ultimate ownership and control of the asset management company of the Fund; (b) sponsor of the Fund; and (c) name of the Fund, it shall not constitute as a change in the fundamental attributes of any of the schemes of the Fund in line with Regulations 18 (15A) of MF Regulations. Also, it will not lead to any change in control of the asset management company as per Regulations 22(e) of MF Regulations and thus the unitholders need not be given an option to exit on the prevailing Net Asset Value without any exit load.

The expenses related to the proposed changes and other consequential changes as outlined above will not be charged directly/indirectly to the unitholders of the schemes of the Fund and will be borne by Bank of India Investment Managers Private Limited. Unitholders who do not receive the Notice along with consent form/email intimation may contact Bank of India Investment Managers

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Private Limited, B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.

As a unitholder, you are requested to go through this communication carefully and consult your financial / tax advisors if you have any questions. Unitholders may also write to us at service@boimf.in. We look forward to your continued support. For Bank of India Investment Managers Private Limited

> (Formerly BOI Star Investment Managers Private Limited) (Formerly BOI AXA Investment Managers Private Limited) (Investment Manager for Bank of India Mutual Fund) (Formerly BOI AXA Mutual Fund)

> > Sd/-

Authorised Signatory

New Delhi

New Delhi - 110029 E-mail: cirp.neemsarvpl@gmail.com 11. Last date for submission of claims 29.06.2023 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi

B1/12, Safdarjung Enclave, 2nd Floor,

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

NOTICE

Locker hired by Mrs.

MEENAKSHI GOYAL having

address at- R-8-30 F NO S-8

Ist FLOOR RAJ NAGAR

GHAZIABAD UTTAR

PRADESH 201001 with RDC

Ghaziabad Branch of Kotak

Mahindra Bank Ltd. situated

at C-77, Raj Nagar RDC,

Ghaziabad-201001 remains

un-operated for the past 3

All the 3 letters sent to Mrs.

MEENAKSHI GOYAL calling

upon her to operate the

locker has returned

unserved and she is not

It is hereby informed that

despite this notice if the said

locker is not operated by

Mrs. MEENAKSHI GOYAL

within 90 days from the

date of this notice, break

open of the said locker will

be done on September 01,

2023 at around 12 p.m

years.

contactable.

Kotak Kotak Mahindra Bank

Locker hired by Mr. SUNDER DAS KAPUR having address at-KD-18 KAVI NAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201001 with RDC Ghaziabad Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at C-77, Raj Nagar RDC, Ghaziabad-201001 remains un-operated for the past 3

NOTICE

years. All the 3 letters sent to Mr. SUNDER DAS KAPUR calling upon him to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Mr. SUNDER DAS KAPUR within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on September 01, 2023 at around 12 p.m

भारतीय कृषि बीमा कंपनी प्लेट बी एवं सी, 5वां तल, ब्लॉक 1,ईस्ट किदवई नगर , नई दिल्ली -110023

सीआईएन : U74999DL2002PLC118123

सूचना

भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी), वर्ष 2023-24 के दौरान अपने व्यवसाय के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं से प्रत्यक्ष या आईआरडीएआई लाइसेंस प्राप्त समग्र/ पुनर्बीमा दलाल के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करती है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.aicofindia.com पर जाएं।

> महाप्रबंधक पुनर्बीमा विभाग

नोट : किसी भी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी विज्ञापन को वरीयता दी जाएगी ।

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएनः L15311CH2011PLC033393 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 807, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़ 160102 कार्यः गांव सोलखियां, हवेली रिसॉटर्स के पास, जिला रूपनगर, 140108 टेलीफोनः +91 1881 240401; वेबसाइटः www.megastarfoods.com; ई-मेलः cs@megastarfoods.com

ढाक मतपत्र की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 (समय-समय पर यथासंशोधित) ("नियम") और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2016 के विनियम 44 (सेबी सूचीयन विनियम) और अन्य लागू नियमों एंव विनिमयों के अनुसरण में **डाक मतपत्र सूचना दिनांक 30 मई, 2023** में वर्णित विशेष व्यवसाय पर डाक मतपत्र एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का पालन करके रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मेगास्टार

फूड्स लिगिटेड ('कंपनी') के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपन्न सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, सामान्य परिपन्न सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, सामान्य परिपन्न सं. 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपन्न सं. 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के अनुसरण में कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात ई-मेल के द्वारा डाक मतपत्र की सुबना भेज रही है जिनके नाम **शुक्रवार, 26 मई, 2023 ("कट-ऑफ तिथि")** को डिपॉजिटरी से प्राप्त की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। और डाक मतपत्र फार्म एवं पूर्व-मुग्तेय व्यवसाय लिफाफे के साथ इस सूचना की हार्ड कॉपी इस डाक मतपत्र में शेयरधारकों को नहीं भेजी जाएगी। तदनुसार, सदस्यों की सहमति / असहमति को केवल रिमोट ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसरण में रिमोट ई-वोटिंग दिशानिर्देश सहित ढाक मतपत्र

सूचना उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल द्वारा 2 जून, 2023 को मेज दी गई है जिनके नाम शुक्रवार, 26 मई, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है और जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि वोटिंग अवधि शनिवार, 3 जून, 2023 को (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और रविवार, 2 जुलाई, 2023 (सार्य 5.00 बजे) (दोनों दिवस मिलाकर) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुक्रवार, 28 मई, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाम उठाने का हकदार होगा और ऐसा सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। उसके बाद सीढीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने या दोबारा

वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना में दी गई है। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये गये वोट की जांच के लिए श्री अजय अरोडा (सदस्यता सं. 2191, सीपी नं. 993), मालिक ए. अरोड़ा एंड कं., पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम **मंगलवार, 4 जुलाई, 2023** को या उससे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबलिक www.megastarfoods.com/assets/pdf/Notice%20of%20Postal%20Ballot.pdf में और इसे कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com प्रकाशित किया जाएगा और उसी दिन इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट एवं ई-वोटिंग एजेंसी को भी दी जाएगी। जिन सदस्यों को ढाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होती है वे cs@megastarfoods.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर आवेदन कर सकते हैं और डाक मतपत्र सूचना की

प्रति प्राप्त कर सकतें हैं। डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.megastarloods.com और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://www.evotingindia.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। रिगोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ / शिकायत के लिए श्री धीरज खेरीवाल, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मेगास्टार फुड्स लिमिटेड, प्लॉट नं. 807, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, वंडीगढ-160102 भारत से संपर्क करें या ई-मेल आईडी cs@megastarfoods.com पर मेल करें या 91 1881

240401 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए https://www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते

हैं या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध मेज सकते हैं।

हस्ता/-

Chandigarh

स्थानः चंडीगद

सर्कल सस्त्र केन्द्र , c-7 , वत्सल मेंशन , सिटी सेंटर ,

कृते, मेगास्टार फूड्स लिमिटेड विकास गुप्ता पुरे समय के निदेशक

DIN: 05123386

दिनांकः 3 जून, 2023 **थ** पंजाब नेशनल बेंक

ग्वालियर (म.प्र.) फोन नं. 0751–2322936

आम जनता को अचल संपत्तियों की ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी विक्रय सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के संपठित नियम 6(2)/8(6) धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परिसंपतियों जो की बैंक से लिए गए ऋण की सुरक्षा हेतु बन्धक की गई थी का कब्जा लिया था। एवं निम्नलिखित सम्पत्तियों का

विक्रय निम्नलिखित दिनाँक एवं समय पर सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय के माध्यम से किया जाएगा । इस सूचना द्वारा आम जन को आमंत्रित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करें । नोट- निविदाकार अपने प्रस्ताव रू 25000/- (रू पच्चीस हजार मात्र) के गणांक में बढ़ा सकेंगे ।

ई-नीलामी की दिनांक 06.07.2023, समयः दोपहर 1:00 से 5:00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारीः श्री मुकेश कुमार अहिरवार					
बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित	EMD धरोहर मूल्य (क्त)	ऋण खाता विवरण	माँग पत्र की राशि	
श्रीमती रजनी जैन पत्नी श्री सतीश चन्द जैन की सपंतिः दुकान नं. A-53, कमर्शियल (दुकान +ऑफिस) ग्राउण्ड एवं प्रथम फ्लोर, जाटनी का बाग, वार्ड क्र. 38, न.नि. भवन क्र. 21/3/A-53, पटवारी हल्का क्र. 21/3, पुराना खसरा क्र. 2087 का भाग, मौजा-घटवासान, छता वार्ड, जीवनी मण्डी, आगरा (ऊ.प्र.) क्षेत्रफल: 111 वर्गमी. (133 वर्गयार्ड) चतुरसीमायैं: पूर्व: प्लॉट नं. A-52 अव निर्मित संपत्ति, पश्चिम: A-54 अब निर्मित संपत्ति, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: अन्य की सपंतित। (सांकेतिक आधिपत्य)	लाख			29.01.2022 को देय रू. 28,51,590.35 + 01.01.2022 से	माँग पत्र दिनाँक 31.01.2022 कब्जा दिनाँक 24.05.2022

ई-नीलामी बिक्री की निबंधन तथा शर्तो: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 में निर्धारित निबंधन तथा शर्तो तथा निम्नलिखित मुख्य शर्तो के अनुसार की जाएगी: (1) सम्पत्ति "वर्तमान में जहाँ है जैसा है, जो भी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जारही है। (2) यद्यपि उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमृति आस्तियों के संबंध में दिया गया विवरण प्राधिकृत अधिकारी की अधिकार जानकारी के अनुसार सही है, किन्तु प्राधिकृत अधिकारी इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत बयान या भूलवश की गई घोषणा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी पोर्टल www.mstcecommerce.com, www.ibapi.in के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जायेगी। नीलामी के विस्तृत निबंधन तथा शर्तों के ब्योरे हेत् बोलीकर्ता बोली में भाग लेने से पूर्व www.mstcecommerce.com, www.ibapi.in पोर्टल का अवलोकन करें अथवा हम से फोन नं. 0751-2322936 पर संपर्क करें । (4) उक्त बोली में सम्मिलित होने के लिए बोलीकर्ता को अपना पंजीयन www.mstcecommerce.com, www.ibapi.in पर अपने मोबाईल नं. तथा ई-मेल का उपयोग करते हुए करना होगा। (5) बोली लगाते समय बोलीकर्ता के ग्लोबल वालंट में पर्याप्त ईएमडी राशि उपलब्ध होनी चाहिए (६) उक्त ई—नीलामी हेतु चालान तैयार होने के पश्चात बोलीकर्ता अपनी ईएमडी राशि नेफ्ट नगद या अन्तरण के माध्यम से रेग्लोबल ईएमडी वालंट में जमा करेंगे जो किसी मी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। नगद या अन्तरण के माध्यम से राशि जमा किये जाने हेतु बोलीकर्ता को चालन फार्म के साथ पीएनबी की शाखा में जाना होगा। ईएमडी राशि चेक या अन्तरण के माध्यम से स्वीकार नहीं की जाँयेगी और बगैर ईएमडी राशि जमा कराये बोलीकर्ता बोली में सम्मिलत नहीं हो सकेंगे । जमा की गई ईएमँडी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा (7) प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण बतायें, किसी भी समय निलामी की शर्तों में परिवर्तन करने अथवा उसे बगैर कोई कारण बतायें स्थगित / रदद / मूलतवी / अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखतें है (8) नीलामी ऊपर दिए गए समय पर आरक्षित मूल्य पर आरभ होगी तथा बोलीकर्ता अपनी बोली में इन्क्रीमेंटल के अनुसार बढ़ोतरी कर सकते है और अंतिम समय में प्रत्येक बोली पश्चात इसमें 10–10 मिनिट की वृद्धि होगी और अंतिम उच्चतम बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाएगा तथा ऐसी बिक्री सुरक्षित लेनदार (बैंक) द्वारा पृष्टि किये जाने के अधीन होगी। (9) सफल बोलीकर्ता को बोली लगाने के पश्चात उसी दिन अथवा किसी भी परिस्थिति में अगले कार्य दिवस के अंत तक 25% (प्रतिशत) (जिसने ई.एम.डी. के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) (खाता संख्या 5389003171160) IFSC Code (PUNB0538900) में जमा कराना होगी अन्यथा जमा कीगई अर्नेस्ट राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सुरक्षित आस्ति की दोबारा बिक्री की जाएगी। (10) सफल बोलीकर्ता को बोली की तारीख से 15 दिनों के भीतर सफल बोली राशि की बकाया 75% (प्रतिशत) जमा कराना होगा अन्यथा उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को जप्त कर लिया जाएगा तथा विक्रित सम्पत्ति के संबंध में बोलीकर्ता के सभी दावे स्वतः समाप्त हो जायेंगे। (11) यदि उधारकर्ताओं या गारंटीकर्ता द्वारा बिक्री के लिए नियत तारीख से पहले या किसी भी समय पर सम्पूर्ण मांग राशि या बैंक को स्वीकार्य उसके किसी भी भाग का भुगतान कर दिया जाता है तो बैंक उक्त नीलामी को निरस्त कर सकता है।(12) उक्त संपत्ति के संबंध में सभी साविधिक बकाया / अनुवर्ती प्रभारों / पंजीकरण प्रभारों, स्टाप डयुटी, करों आदि सहित अन्य बकाया खरीददार द्वारा वहन किये जायेंगै।(13) बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिस नाम से बोली प्रस्तुत की गई है। (14) आधिकृत अधिकारी या कई नीलामी कृत संपत्ति के संबंध में किसी प्रभार, धारणाधिकार, भार या सरकार की किसी भी बकाया या अन्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभीष्ट बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि सांविधिक दायित्वों, सम्पत्ति कर के बकाया, बकाया, बिजली बिंल आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पृछताछ कर लें। (15) संपत्ति के निरीक्षण हेत् इच्छक बोलीकर्ता ऊपर दिए गए फोन नम्बर पर संपर्क कर सकते है।

(16) इच्छुक बोलीकर्ता (बयाना जमा राशि) ईएमडी जमा करने से पूर्व उक्त संपत्तियों के ब्योरे का विधिवत सत्यापन अपने स्तर पर कर लें। वैधानिक चेतावनी: सरफेसी नियम 8 (6) के तहत उपरोक्त ऋणों के ऋणियों/जमानतदारों/बंधकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की दिनांक से 1 दिन पहले तक प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

G20 (i) एसएसई / पीएस / एनडीएलएस के अनुमाग में (ii) डीआरएम कार्यालय, नई दिल्ली में केंटीन, परीक्षा हॉल और फर्नीचर के प्रावधान में सधार। (iii) डीआरएम कार्यालय, एनडीएलएस में गति

1693/23

having

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker hired by Mr.

address at-II-A-F-23 NEHRU

NAGAR SIHANI GATE

GHAZIABAD UTTAR PRADESH

201001 with RDC Ghaziabad

Branch of Kotak Mahindra

Bank Ltd. situated at C-77, Raj

Nagar RDC, Ghaziabad-

201001 remains un-operated

All the 3 letters sent to Mr.

PRADEEP YADAV calling upon

him to operate the locker has

returned unserved and he is

It is hereby informed that

despite this notice if the said

locker is not operated by

Mr. PRADEEP YADAV within

90 days from the date of this

notice, break open of the said

locker will be done on

September 01, 2023 at

for the past 3 years.

not contactable.

around 12 p.m

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. ओए/92/2023

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली,

पंजाब नैशनल बैंक बनाम श्री सतनाम सिंह खनुजा

(1) श्री सतनाम सिंह खनूजा, श्री सतनाम सिंह खनूजा पुत्र श्री दिलीप सिंह खनूजा निवासीः मकान नं.

(2) प्रतिवादी संख्या 2 - श्रीमती हरप्रीत कौर चावला पत्नी श्री सतनाम सिंह खनुजा पुत्र श्री दिलीप सिंह

खनूजा, मकान नं. 137-एबी, न्यू कॉलोनी, गुड़गांव हरियाणा, निवासी इसका पैन नं. AIHPG9207C.

(3) प्रतिवादी सं. 3 मैसर्स द्वारकायीश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, निवासी ग्राम महेश्वरी, सेक्टर-22,

धारप्ढेडा जिला रेवाडी, हरियाणा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, PD-

4A., पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088 जिसका पंजीकृत कार्यालय पीडी-4ए, पीतमपुरा, नई

दिल्ली-110088 और: मैसर्स द्वारकाधीश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालयः सट #17. दितीय

जबिक, ओए/92/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 29.04.2023 को प्रस्तुत किया

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 29,07,272/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए

गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नीटिस जारी करने

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दीरान, प्रत्याभूत

आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के

क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण

बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से

प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्की प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित घारक बैंक

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 21/09/2023 को

पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्पन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

तल, निनेक्स सिटी मार्ट, सोहना रोड, गुड़गांव 122018 हरियाणा, गुड़गांव, हरियाणा - 122018

का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30.05.2023 को दिया गया।

की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया जाएगा।

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

अनुमति के बिना, नहीं करेंगे:

137-एबी, न्यू कॉलोनी, गुड़गांव हरियाणा इसका पैन नंबर ALNPR5871L. गुड़गांव, हरियाणा

PRADEEP YADAV

उत्तर रेलवे

निविदा आमंत्रण सूचना

रु. 54.66 लाख

www.ireps.gov.in

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा निवेदन की दिनांक व समय 30.06.2023, 12.00 Hrs

निविदा खोलने की दिनांक व समय 30.06.2023, 12.00 Hrs

kotak

NOTICE

Locker hired by Mr.

MOHD MUSTEHSIN NISSAR

having address at-F-4 30

VANDNA APTT SECTOR-8 RAJ

NAGAR GHAZIABAD UTTAR

PRADESH 201001 with RDC

Ghaziabad Branch of Kotak

Mahindra Bank Ltd. situated

at C-77, Raj Nagar RDC,

Ghaziabad-201001 remains

un-operated for the past 3

All the 3 letters sent to Mr.

MOHD MUSTEHSIN NISSAR

calling upon him to operate

the locker has returned

unserved and he is not

It is hereby informed that

despite this notice if the said

locker is not operated by Mr.

MOHD MUSTEHSIN NISSAR

within 90 days from the date

of this notice, break open of

the said locker will be done on

September 01, 2023 at

1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

contactable.

around 12 p.m

Kotak Mahindra Bank

30-Elect-10-T-2023-24-E3

मरम्मत और रखरखाव कार्य।

निम्नलिखित के संबंध में विदयुत कार्य।

शक्ति के कार्यालय में विदयुत कार्य।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, नई दिल्ली

कार्य का नाम और इसकी

निविदा की अनुमानित लागत

वेबसाइट व नोटिस कोर्डः

कार्यालय का पता

वयाना राशि

Chola

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 2, डेयर हाउस, प्रथम तल, एनएससी बोस रोड, चेन्नई-600 001 **शाखा कार्यालय:** एस.सी.ओ नंबर 218-219, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक की बेकसाइट एंट्री, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़ -160022 अम्बाला शाखा : दूसरी मंजिल, 97, प्रेम नगर, अंबाला शहर, अम्बाला-134003 संपर्क नंबर: श्री तनुज शर्मा- +91 93162-54005

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

अचल सम्पत्तियों को बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जिसे इसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया

जाएगा. के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है। प्रतिभत संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से ''जहां है जैसे है अधार'' 'जो है यही है आधार'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है आधार'' के इसके द्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://chola-lap-procure247 com/ के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

खाता सं. तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधककर्ताओं के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति⁄सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि, संविदा वृद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि ए समय, ईएमडी जमा कर की अन्तिम तिथि, निरीक्ष की तिथि
ऋण सं. X0HEAML00002737997 और HE02AML0000006440 1. वंदना, 2. नवदीप मंगला 3. संदीप कुमार सभी निवासी 16, चंदर पुरी कॉलोनी, मचहोंडा 105, अंबाला, हरियाणा पिन कोड 133004 4. मैसर्स गणपित इंटरप्राइजेज पता :16, चंदर पुरी कॉलोनी, मचहोंडा 105, अंबाला, हरियाणा पिन कोड 133004	28-09-2021, रु. 51,74,454.99/- तिथि 26-09-2021 तक	मकान नंबर 16, चंदर पुरी कॉलोनी, हदबरत नंबर 105 के भीतर स्थित, खेवट नंबर. 774, खतौनी नं.948, खसरा नं. 36//6/2,15,37//2,9,10/2,11,12 अन्तरण विलेख नं. 2201 दिनांक 16.10.2018 को पंजीकृत।	も、7,20,000/一 も、1,00,000/一	20-06-2023 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 अप. 19-06-2023 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 अप. अनुमति के अनुसार

1. सभी इच्छ्क प्रतिभागी/बोलीदाता कृपया वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ तथा https://www.cholamandalam.com/auction-notices देखें। वि तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें : (महम्मद रहीस - 81240 00030), Ms.Procure247.; श्री अल्पेश बोरिसा सेल नं. 7046612345/ 9898056524,

2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया देखें : https://chola-lap.procure247.com/ तथा https://www.cholamandalam.com/auction-notices.

तिथि : 03.06.2023

अधिकृत प्राधिकारी स्थान : चण्डीगढ़/अम्बाला

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

30 के अनुसरण में} केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए के मामले में

महर्षि वैदिक गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL1997PTC088901) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **ढीजीएल–121, पहली** मंजिल, डीएलएफ द गैलेरिया,मयुर विहार फेरा-1, दिल्ली-110091 में हैं, के मामले में

तदहारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" मे स्थानांतरित करने के लिए **शनिवार, 27 मई 2023** क आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष रताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है त वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से वौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी** क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंढित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक

सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय ऋणषोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का विनियम 12) नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मोंटेज फ्लेक्सिपैक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में विदित) के हितग्राहियों के ध्यानार्थ नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (पर्व में मोंटेज फ्लिक्सिपैंक सल्स प्राइवेट लिमिटेड निगमित देनदार का नाम रूप में विदित) 26/08/2019 निगमीकृत / पंजीकृत है फेज-।, पटपड़गंज दिल्ली पूर्वी दिल्ली दिल्ली कार्यालय (यदि कोई हो) का पता पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016 -17/10006 −मेलः ml iain(पत्र—व्यवहार का पता : टारा रूमेधा मैनेजमेंट सोल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड जाने के लिए पता एवं ई–मेल बी1 / 12, सफदरजंग एन्क्लेव, द्वितीय तल, नई ई-मेल : cirp.neemsarvpl@gmail.com एतदद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-।।। ने दिनांक 30-05-2023 को नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मोंटेज फ्लेक्सिपैक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप

में विदित) के परिसमापन को प्रारंभ करने का आदेष दिया है। एतदद्वारा नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मोंटेज फ्लेक्सिपैक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में विदित) के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मद सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, परिसमापक के पार 29-06-2023 को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य सहित अपने दावों को प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण, अपने दावों को साक्ष्य सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण, साक्ष्य सहित दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा।

मोहन लाल जैन नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में स्थान : नई दिल्ली (पूर्व में "मोंटेज फ्लेक्सिपैक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में विदित)

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016 -17/10006

अनिडलिवर्ड

डिमांड नोटिस

स्पीड /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड

नोटिस भेजने की तारीखः 18.05.2023

डिमांड नोटिस की तारीख: 17.05.2023

नोटिस के अनुसार देय राशि

₹0 31,36,990.00

दिनांक 16.05.2023 को

+ ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2023 से

स्पीड /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड

नोटिस भेजने की तारीख: 16.05.2023

डिमांड नोटिस की तारीख: 15.05.2023

नोटिस के अनुसार देय राशि

₹0 2519906.24

दिनांक 14.05.2023 को

+ ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2023 से

स्पीड /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड

डीजीएल-121, पहली मंजिलए डीएलएफ द गै लेरिया, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से महर्षि वैदिक गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-दिनांक : 02.08.2023 वास्देव चावला (निदेशक) ढीआईएन: 01082533 ा सिडिकेट Syndicate शाखा

दिनांक : 03-06-2023 केनरा बैंक Canara Bank 📣 ऋणी / गारंटर का नाम तहसील सदर, जिला रामपुर अगापुर, तहसील सदर, जिला रामपुर मैसर्स अमन वुड इंडस्ट्रीज, ग्राम पनवाडिया, तहसील अधूरा मकान प्लॉट नंबर 6, गांव शादीनग सदर रामपर।

(पार्टनर— मैसर्स अमन वुढ इंडस्ट्रीज) मकान नं. 27, मोहसिना परवीन पत्नी श्री मोहम्मद इनायत मौहल्ला कानूनगोयन चरथावल ग्रामीण मुजफ्फरनगर। के नाम, सीमायें:--उत्तरः रास्ता, दक्षिण अो मोहम्मद रिफाकत पुत्र श्री मोहम्मद मेहरबान श्रीमती जकीरा खान की भूमि, पूर्व: सुनील (पार्टनर-मैसर्स अमन बुढ इंडस्ट्रीज) मकान नं. 27. कुमार सिंह का प्लॉट नंबर 5, पश्चिम मीहल्ला कानूनगोयन चरथावल ग्रामीण मुजफ्फरनगर। श्रीमती शिव देवी का प्लॉट नंबर 7

 श्रीमती मोहसिना परवीन पत्नी श्री मोहम्मद इनायत (पार्टनर-मैसर्स अमन वुड इंडस्ट्रीज) मकान नं. 27, मौहल्ला कानूनगोयन चरथावल ग्रामीण मुजफ्फरनगर।

मकान नं. ३९९, हिदायतनगर लखीमपुर खीरी।

लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल 102.23 वर्ग श्रीमती शादाब खातून पत्नी श्री शहजाद सादिक खान, पूर्वः अन्य की आराजी

नोटिस भेजने की तारीखः 22.05.2023

डिमांड नोटिस की तारीख: 21.05.2023 नोटिस के अनुसार देय राशि

₹0 492025.92 दिनांक 20.05.2023 को + ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2023 से

में डाक विभाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया / लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को

मल रूप में अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुब्छेंद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 01.06.2023

पुरुप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

मैक्सवड इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2016PTC305963) जेसका पंजीकृत कार्यालय: **६ए, एलजीएफ, राजपूर** एक्सटेंशन कॉलोनी, खसरा सं. 117/1/2 नई दिल्ली-110068 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकत्त एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" मे स्थानांतरित करने के लिए 24 अप्रैल 2023 के आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

६ए, एलजीएफ, राजपुर एक्सटें शन कॉलोनी खसरा सं. 117 / 1 / 2 नई दिल्ली-110068

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से मैक्सवुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मनोहर वाधवानी (निदेशक) दिनाक: 02.06.2023 स्थान : नई दिल्ली ढीआई एन : 07593480

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03-06-2023

प्रपन्न बी सार्वजनिक उद्योषणा (भारतीय ऋणषोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) वेनियमावली २०१६ का विनियम १२) विधर्व ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में "मोंटेज मरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में विदित) के हितग्राहियों के ध्यानार्थ

3 लखीमपुर

खीरी।

		के रूप में विदित)
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	03/09/2019
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	U51909DL2019PTC354643
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	संजीकृत कार्यालयः कार्यालय सं. ३, डी–21, आचार निकेतन, मयूर विहार फेज–।, पटपड़गंज दिल्ली – 110091, भारत
6.	ऋणषोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि	29/05/2023
7.	निगमित देनदार की परिसमापन प्रारंभन तिथि	30/05/2023
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत् ऋणशोधन अक्षमता पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नामः श्री मोहन लाल जैन धंजीकरण संख्याः
	→ f →	IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016 -17/10006
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, परिसमापक का पता एवं ई—मेल	सता : एफ-2 / 28, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली दिल्ली-110089 ई-मेल: ml jain@sumedhamanagemet.com
10	परिसमापक के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	पत्र-व्यवहार का पता : द्वारा सुमेधा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड बी1/12, द्वितीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110029 संपर्क नंबर: 011–4165 4481/85 ई-मेल आईडी: cirp.vidharvatpl@gmail.com
11	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	29/06/2023

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–।।। ने दिनांक 30—05—2023 को मैसर्स विधर्व ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में ''मोंटेज मरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड'' के रूप में विदित) के परिसमापन को प्रारंभ करने का आदेष दिया है। एतदद्वारा मैसर्स विधर्व टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पर्व में "मोंटेज मरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में विदित) के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मद सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, परिसमापक के पास 29–06–2023 को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य सहित अपने दावों को प्रस्तुत करें।

ऋणदातागण, साक्ष्य सहित दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा अपने संबंधित फॉर्म्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्रों के लिये कृपया निगमित देनदार की वेबसाइटः http://www.vidharvatrading.co.in का संदर्भ ग्रहण करें / तथा प्रपत्र https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

> मोहन लाल जैन विधर्व ट्रेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में (पूर्व में "मोंटेज मरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में विदित्त)

ई-मेल आईडी : alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

....आवेदक कंपनी / याचिकाकत्त में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

> बंधक सम्पत्ति का विवरण मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर (प्रोप. श्री मुरारी लाल प्लॉट नंबर 435/1 एमई, ग्राम अगापुर पुत्र श्री डाल चंद) ग्राम अगापुर, तहसील सदर, तहसील सदर, जिला रागपुर, संपत्ति श्री मुरारी लाल पुत्र श्री डाल चंद के नाम श्री मुरारी लाल पुत्र श्री ढाल चंद, ग्राम अगापुर, क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर (बिक्री विलेख के श्रीमती ओमवती पत्नी श्री मुरारी लाल, ग्राम दिक्षणः रास्ता, पूर्वः अराजी मुकीर, पश्चिम

> अनुसार) **सीमायें:**— उत्तरः आराजी मुकीर मुरारी लाल खरीददार का प्लॉट। गट्टी छोटे, तहसील सदर जिला रामपुर 2.श्री मोहम्मद इनायत पुत्र श्री मोहम्मद मेहरबान क्षेत्रफल 140.42 वर्गमीटर, संपत्ति श्रीमर्त

 श्रीमती शादाब खातून पत्नी श्री शहजाद नबी मकान प्लॉट नंबर 8 गाटा नंबर 84 का भाग खान मकान नं. 399, हिदायतनगर, लखीमपुर वार्ड प्यारेपुर मीहल्ला कुमार नगर श्री शहजाद नबी खान पुत्र श्री मोबिन खान मीटर। (बिक्री विलेख के अनुसार) संपत्ति 3 श्रीमती रुखसाना बेगम पत्नी श्री मुस्तफा खान नवी खान के नाम, सीमायें:— उत्तर मकान नं. 228, कमलापुर, शिव कॉलोनी लखीमपुर अराजी सादिक खान, दक्षिण अराजी

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित

ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाख

otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

क्र.स	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	चिमसित देवदार का चाम	बिधर्ष ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में "मोंटेज मरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में विदित)
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	03/09/2019
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं./सीमित दायित्व पहचान सं.	U51909DL2019PTC354643
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय सं. 3, डी–21, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेज– ।, पटपड़गंज दिल्ली – 110091, भारत
6.	ऋणषोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि	29/05/2023
7.	निगमित देनदार की परिसमापन प्रारंभन तिथि	30/05/2023
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत् ऋणशोधन अक्षमता पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नामः श्री मोहन लाल जैन पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016 -17/10006
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, परिसमापक का पता एवं ई—मेल	सता : एफ–2 / 28, सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली, दिल्ली–110089 ई–मेल: ml_jain@sumedhamanagemet.com
10	परिसमापक के साथ पत्र—व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई—मेल	पत्र-व्यवहार का पता : द्वारा सुमेधा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

वित्तीय ऋणदातागण, अपने दावों को साक्ष्य सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य दावों के त्रूटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा।

पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016 -17/10006

दिनांक : 03.06.2023 सम्पूर्ण ऋण (बकाया) नहीं चुकाने की दशा में निविदा के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय कर दी जाएगी एवं जिसके समस्त हर्जे–खर्चे के आप जिम्मेदार होंगे । स्थान : ग्वालियर

www.readwhere.com

में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।